



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

10 माघ 1945 (श10)

(सं0 पटना 75) पटना, मंगलवार, 30 जनवरी 2024

बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार

अधिसूचना

5 जनवरी 2024

सं० नि.प्रा./नि. 1-01/2024-15—बिहार सहकारी सोसाईटी (संशोधन) अधिनियम, 2011 के धारा-14 क (1) के प्रावधानों के आलोक में सहकारिता विभाग की अधिसूचना संख्या-1273 दिनांक 01.03.2012 द्वारा बिहार सहकारिता अधिनियम, 1935 के अधीन निबंधित सहकारी समितियों की प्रबंध समिति के निर्वाचन संचालन का दायित्व बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार को सौंपा गया है।

2. उक्त परिप्रेक्ष्य में बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार अधिनियम 2008 की धारा 5 (2) एवं बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार नियमावली 2008 के नियम 6 (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए शाहाबाद दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड, कतीरा, आरा के निर्वाचन के लिए सदर अनुमंडल पदाधिकारी, आरा सदर को निर्वाचन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

3. अनुमंडल पदाधिकारी—सह— निर्वाचन पदाधिकारी (सं०स०), आरा सदर उक्त संघ के निर्वाचन हेतु अपने अधीन कार्यरत प्रखंड विकास पदाधिकारी/ अंचलाधिकारी/ भूमि सुधार उप समाहर्ता/ उप समाहर्ता को उप निर्वाचन पदाधिकारी के रूप में नियुक्त कर सकते हैं।

4. अनुमंडल पदाधिकारी—सह— निर्वाचन पदाधिकारी (सं०स०), आरा सदर, जिला पदाधिकारी—सह—जिला निर्वाचन पदाधिकारी (सं०स०), भोजपुर के निर्देशन एवं नियंत्रण में संबंधित समिति का चुनाव संबंधी कार्य करेंगे।

5. उक्त सभी पदनामित पदाधिकारी बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार अधिनियम, 2008 की धारा-4 के अंतर्गत बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार के पर्यवेक्षण, निदेशन एवं नियंत्रण में निर्वाचन का संचालन करेंगे।

आदेश से,  
पुरुषोत्तम पासवान,  
सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 75-571+50-डी0टी0पी0।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>